

कर्मिल स्कूल, मधुपुर

कक्षा - पंचम

हिन्दी द्वितीय

पाठ - 1

मेरा देश (कविता)

अपने पाठ्य पुस्तक के अन्तर्गत 'मेरा देश' शीर्षक कविता की वारह पक्तियाँ लिखें।

ऊँचा खड़ा हिमालय, आकाश चूमता है,
नीचे पश्चिम पग तल, नित सिंधु झूमता है,
गंगा पक्ति समुद्र, नदियाँ लहर रही है,
पल-पल नयी छटाएँ, पग-पग छहर रही है,
वह पुण्यभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी,
वह स्वर्णभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।

झरने अनेक झरने, जिसकी पहाड़ियों में,
चाड़ियाँ चढ़क रही है, हो मस्त झाड़ियों में,
अमरपुष्पाँ धानी है, कोयल पुकारती है,
बहती मलय पवन है, लज-मन सँवारती है,
वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी,
वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।

- सोहनलाल द्विवेदी

शब्दार्थ

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. पश्चिमना → धौना । | 5. पुण्य → पवित्र । |
| 2. पग → पैर । | 6. मलय → चंदन । |
| 3. नित → रोज । | 7. पुनीत → पवित्र । |
| 4. सिंधु → समुद्र । | 8. जग → संसार । |

चुनमुन और चिड़िया का बच्चा

Shot on Y11
Vivo AI camera

प्रश्न (1) चुनमुन क्यों खुश हुआ ?

उत्तर → चुनमुन खुश इसलिए हुआ क्योंकि उसके आँगन में दीवार की खोरखोल में एक चिड़ा और चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था।

प्रश्न (2) चिड़िया ने घोंसला कैसे बनाया ?

उत्तर → चिड़िया ने घास, फूस, सुतली आदि से अपना घोंसला बनाया।

प्रश्न (3) चुनमुन मम्मी से क्या-क्या सवाल पूछता है ?

उत्तर → चुनमुन मम्मी से यह सवाल पूछता है कि चिड़िया यह क्यों करती है ? वह क्यों करती है ? और चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आरंभ ? कब आरंभो चिड़िया के बच्चे ?

प्रश्न (4) स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे के साथ क्या करता है ?

उत्तर → स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे को टा-टा कहना नहीं भूलता।

प्रश्न-5) चिड़िया का बच्चा क्यों डरा हुआ था?

उत्तर - चिड़िया का बच्चा डरा हुआ था कि एक दुष्ट कोआ उन बच्चों को हड़पना चाहता था।